

**GOVT. HOLKAR (MODEL AUTONOMOUS)
SCIENCE COLLEGE, INDORE**



(An ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified Institution)



SSR DOCUMENT

2017-18 TO 2021-22

CRITERION -7

Institutional Values and Social Responsibilities

Metric No.:7.1,1

Document Title:

Events/Celebrations related to Women's Empowerment

तमसो मा ज्योतिर्गमय

EXTENSION AND OUTREACH PROGRAM

S. No	Component/Activities	Details of event
1	Name of the Department / Unit / Agency:	09 MP BN NCC HSC INDORE
2	Name of the Activity:	VISIT TO KASTURBAGRAM: Understanding the journey of rural women empowerment.
3	Date and Year of the Activity:	22.02. 2019
4	Number of Students Participated in the activity:	25
5	<p>Report of the Activity:</p> <p>The Kasturba Gandhi National Memorial Trust is an organisation dedicated to the development of women and children in rural India. It was founded by Mahatma Gandhi in 1945 in dedication to his deceased wife Kasturba Gandhi. It has its headquarters in Kasturbagram, Indore, Madhya Pradesh. It has branches in 22 States and focuses on health care, education, vocational training and employment. In 2008, the Government of India conferred the Indira Gandhi Award for National Integration upon the trust.</p> <p>The cadets understood the various extension services done by the trust such as their socio-economic programmes, training programmes for women, support facilities for village etc.. They understood about hand spinning, which is a Gandhian ethic and how it is undertaken as a value of self-reliant life style in most branches of the Trust. Every Centre of Assam branch is engaged in hand spinning and hand-weaving. Chhattisgarh, Orissa, West Bengal and Kasturbagram, Indore are also playing a steady role for this. Special services during pandemics, natural disasters were also explained to them.</p> <p>Impact of the Activity:</p> <p>The activity of visiting the Kasturba Gandhi National Memorial Trust and understanding its various extension services had several positive impacts on the NCC cadets:</p> <p>Awareness and Understanding: The cadets gained valuable knowledge about the Kasturba Gandhi National Memorial Trust and its dedication to the development of women and children in rural India. They became aware of the Trust's various socio-economic programs, training initiatives for women, and support facilities for villages.</p> <p>Appreciation of Gandhian Values: Learning about hand spinning as a Gandhian ethic and its promotion as a means of self-reliant lifestyle instilled a sense of appreciation for Gandhian principles and values among the cadets.</p>	

	<p>Social Responsibility: Understanding the Trust's efforts in providing special services during pandemics and natural disasters reinforced the importance of social responsibility and humanitarian work. The cadets gained insights into how organizations can play a significant role in helping communities during challenging times.</p> <p>Exposure to Grassroots Development: Visiting Kasturbagram and observing the Trust's activities allowed the cadets to witness grassroots development efforts firsthand. This exposure can inspire them to get involved in similar community-based initiatives in the future.</p> <p>Empowerment of Women and Children: Learning about the Trust's focus on health care, education, vocational training, and employment for women and children highlighted the importance of empowering these vulnerable sections of society for overall societal development.</p> <p>Recognition of Philanthropic Efforts: Understanding that the Trust received the Indira Gandhi Award for National Integration from the Government of India showcased the impact and recognition of philanthropic efforts in fostering national integration.</p> <p>Inspiration for Community Service: The activity may have motivated the cadets to engage in community service and contribute to the welfare of marginalized communities in their future endeavors.</p> <p>Building Synergy with NGOs: Interacting with the Kasturba Gandhi National Memorial Trust allowed the cadets to understand the importance of synergy between NGOs and government organizations in addressing social and developmental challenges effectively.</p> <p>Cultural Appreciation: Observing hand spinning and hand-weaving activities in different branches of the Trust exposed the cadets to India's rich cultural heritage and traditional crafts.</p> <p>The impact of the activity was multi-faceted, ranging from awareness and understanding of social issues to inspiration for community service and appreciation for Gandhian values. It provided the NCC cadets with insights into the efforts and contributions made by organizations like the Kasturba Gandhi National Memorial Trust in uplifting the lives of women and children in rural India.</p>
--	---

6

Photo of Activity:



Total cadets participated: 25

1. CDT. AFROJ – MP18SDA433641
2. CDT. CHETAN – MP18SDA43343
3. CDT. DEWRAJ – MP18SDA43346
4. CDT. GAJENDRA SINGH TOMAR – MP18SDA43346

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. CDT. KULDEEP ASTAYA – MP18SDA433486. CDT. NIKHLESH PATIDAR – MP18SDA433507. CDT. PRATHMESH UPADHYAY – MP18SDA433528. CDT. SHANTANU RAM – MP18SDA433539. CDT. SOMESH PAREEK – MP18SDA4335410. CDT. TEJAS ISHI – MP18SDA4335511. CDT. ARADHANA DHAKAD – MP18SWA43365612. CDT. MONIKA PANWAR – MP18SWA43365713. CDT. POORNIMA PATHAK – MP18SWA43366014. CDT. RAJ RAJESHWARI BHOSLE – MP18SWA43366115. CPL REENA BARFA – MP18SWA43366216. UO SONALI CHAWDA – MP18SWA43366317. SGT. SURBHI JOSHI – MP18SWA43366418. LCPL ASHIVANI KUMAR BHADVIYA – MPSD17A43364219. UO BHAGENDRA KUMAR – MPSD17A43364420. SUO SANJAY JATAV – MPSD17A43364921. UO PRANJAL ASATI – MPSW17A43365322. SGT PRANJAL YADAV – MPSW17A43365423. CPL SHALINI SINGH – MPSW17A43365524. CDT RAHUL PARMAR – MPSD17A43364825. CDT KISHORE RAJPUT – MPSD17A433645 |
|--|--|

NCC Activity In charge

EXTENSION AND OUTREACH PROGRAM

S. No	Component/Activities	Details of event
1	Name of the Department / Unit / Agency:	NSS (UNIT 1 & 2)
2	Name of the Activity:	International Women's Day 2018-19
3	Name of the Scheme:	National Service Scheme
4	Date and Year of the Activity:	08 March 2019
5	Number of Students Participated in the activity:	175 Students & 06 Teachers

6	<p>Report of the Activity: International Womens Day was celebrated jointly by NSS and Yuva Red Cross Society. On this occasion a programme was conducted for the girls of the college. The programme theme was womens safety in the society. On this occasion the girls of the college were given a training on Judo Karate and taught about how they can keep themselves safe in school, colleges, market places or any other place. The programme was organised enthusiastically by Dr.Seemavati Sisodiya, Dr.Angoorbala Bafna, Dr. Poonam Bhatnagar & Dr.Preeti Chaturvedi under the guidance of Dr.Arun Kher, Principal of the college.</p> <p>The impact of such a program could be significant:</p> <p>Empowerment: Providing training in Judo Karate and educating the girls about safety measures can boost their confidence and sense of empowerment. Knowing how to defend themselves physically can make them feel more secure and capable of handling challenging situations.</p> <p>Awareness: The program likely raised awareness among the girls about the importance of women's safety and the potential risks they might face in different environments. Being informed can help them make better decisions and be more vigilant.</p> <p>Practical skills: Learning self-defense techniques like Judo Karate equips the girls with practical skills to protect themselves in case of any threatening or dangerous situations. This can be especially beneficial in situations where they might not be able to seek immediate help.</p> <p>Support: Organizing such a program jointly by various groups and under the guidance of college faculty fosters a sense of camaraderie and support for women's safety. It highlights the importance of solidarity and working together to create a safer environment for women.</p> <p>Role Models: The involvement of Dr. Seemavati Sisodiya, Dr. Angoorbala Bafna, Dr. Poonam Bhatnagar, Dr. Preeti Chaturvedi, and the guidance of Dr. Arun Kher, the college Principal, showcases strong role models advocating for women's safety. This can inspire the girls to pursue leadership roles and become advocates for women's rights in the future.</p> <p>Long-term Impact: By addressing the issue of women's safety directly within an educational institution, the program can have a long-term impact. It may influence the college's culture, policies, and practices to ensure a safer environment for all students.</p> <p>Community Engagement: Celebrating International Women's Day in this manner involves the larger community. It creates awareness not just among the students but also among faculty, staff, and other members of the college community, fostering a culture of safety and gender equality.</p> <p>Overall, the joint celebration and the safety program can contribute to creating a safer and more supportive environment for the girls in the college. It can empower them with valuable skills and knowledge, and potentially inspire a positive change in attitudes towards women's safety within the college and beyond.</p>
---	---



An Overview of Women Empowerment Activities from the session 2017 onwards

S. No	Name of the activity	Organizing unit/ agency/ collaborating agency	Year of the activity
1.	Heath checkup camp	Women Empowerment	31/01/17
2.	E shakti Program	Women Empowerment	23/03/17-24/03/17
3.	Vigilance awareness week	Women Empowerment and Oriental insurance company	04/11/17
4.	Health checkup camp	Women Empowerment and Arvindo Medical College	29/10/18-30/10/18
5.	Eye test	Women Empowerment and Lorence Mayo Sensitive	15/10/18
6.	Vigilance awareness week	Women Empowerment and oriental Insurance company	29/10/19- 03/11/19
7.	Plantation on kargil divas	Women Empowerment	30/07/19

8.	Problem Solving	Under the aegis of Mahila Suraksha Samiti (City Level) and Women Empowerment Cell, every month the local lady police officials interact with students regarding problems faced by them for solutions.	2016 onwards
9.	Women Self-Defence Programme “KAVACH”	Under the aegis of Mahila Suraksha Samiti (City Level), Women Empowerment Cell and Office of Police Superintendent, Indore (West) and Martial Art Association	7/09/2019
10.	One day Women Empowerment Workshop	Women Empowerment	16/03/2020
11.	Webinar on Mental Health and Covid-19 Speakers	Women Empowerment	30/07/2020
12.	National Webinar on	Women Empowerment	08/07/2020

E shakti Program	Women Empowerment	23/03/17-24/03/17
------------------	-------------------	-------------------

महिलाओं ने सीखा कैशलेस ट्रांजेक्शन

इंदौर (आरएनएन)। ई-गर्लिक जागरूकता प्रचार प्रसार अभियान के अंतर्गत ई-गर्लनेस के सदस्यों की ओर से होलकर सड़क कॉलेज में चल रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार को हुआ।

इससे छात्राएं, महिला प्राध्यापक, महिला अतिथी विद्वान, महिला तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाभान्वित हुए। प्रशिक्षण के अंतर्गत इंटरनेट से संबंधित ई-बैंकिंग द्वारा कैशलेस ट्रांजेक्शन, डिजिटल लॉकर, वॉ-मेल, रेल्वे टिकट बुकिंग एवं रिजर्वेशन व यू-ट्यूब आदि का उपयोग करना सिखाया और टीम के द्वारा महिलाओं को कैशलेस पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वे नादी



का उपयोग कम से कम कार इंटरनेट द्वारा किसी भी तरह के लेनदेन आसानी से कर सकें। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. के.एस. चतुर्वेदी व समिति प्रभारी डॉ. अर्पू कल्ला चरणों के साथ प्राध्यापक और कर्मचारी महिला उपस्थित थीं।

E- Shakti
programme
23- 24
March,
2017



Heath checkup camp	Women Empowerment	31/01/17
--------------------	-------------------	----------

Blood
Donation
awareness
Rally 31 Jan,
2017









सशक्त महिला समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है

सशक्त नारी-समाज का स्तम्भ, लैंगिक समानता प्रगतिशील समाजिक परिवर्तन

इन्दौर। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन महिला सशक्तिकरण एवं उत्पीड़न समिति द्वारा किया गया। विध्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। वेबिनार का उद्घाटन डॉ. सुरेश टी. सिलावट, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग एवं प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर ने किया।

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकार ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर परिचर्चा और वेबिनार आयोजित कर समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। जरूरत है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति उनके लिए बनाए गए कानूनों से अवगत कराने की। ये विचार डॉ. सुरेश टी. सिलावट,



अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर ने अपने उद्घोषण में व्यक्त किए। महिला के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य हैं, लैंगिक समानता, उनकी प्राप्त कानूनी अधिकारों की जानकारी, सामाजिक बंधनों, भेदभावपूर्ण दस्तूरों, कुरीतियों से निजात दिलाना। वेबिनार में डॉ. स्वाति पाठक ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखते हुए कहा कि एक सशक्त महिला समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। आज महिलाओं ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बरन अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की है। केवल कुशल ग्रहणी की सीमित

परिभाषा को बदलकर कुशल प्रशासक राजनीतिक, न्यायाधीश, चिकित्सक अभियन्ता, शिक्षक, लेखिका के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं। वह अत्याचारों के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। डॉ. ज्योति जैन महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के उन्नति के समान अवसर मिले पर विस्तृत चर्चा की। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, पर अभी भी हममें से अधिकांश को कानूनों की सही जानकारी नहीं होने के अभाव में महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के कानूनी अधिकार

पर न्यायाधीश नीता गुप्ता, रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल ने विस्तृत में जानकारी दी।

वेबिनार की संयोजक एवं प्रभारी, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ डॉ. पूनम भटनागर ने कहा कि इस वेबिनार के कार्यक्रम से महिलाओं को अपने कर्तव्य स्थल पर उनके लिए भारत के संविधान में निश्चितता पूर्वक कार्य करने के लिए कौन-कौन सी कानूनी सहायता मिल सकती कि जानकारी मिलेगी।

राष्ट्रीय वेबिनार में भारत के कई प्रदेशों एवं अमेरिका, लंदन, दुबई, आबुदाबी, अंतराष्ट्रीय स्तर के एक हजार से अधिक प्रतिभागी अपना पंजीयन करवा चुके हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनामिका जैन, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र ने किया। आभार डॉ. प्रीति चतुर्वेदी ने माना। कार्यक्रम के सक्रिय आयोजन में डॉ. अंगूरबाला बाफना, डॉ. तीर्थोद अम्बासी, डॉ. प्रतिभा मुजुमदार, डॉ. सीमावती सिंसोदिया, डॉ. प्रमिला कोरी एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉ. आर.सी. दीक्षित का सक्रिय योगदान रहा तथा डॉ. नेतराम कौरव, डॉ. संदीप गौहर तकनीकी सहयोग दिया।

(डॉ. सुरेश टी. सिलावट)
प्राचार्य शासकीय होलकर
विज्ञान महाविद्यालय,
इन्दौर (म.प्र.)

ग्रा ज्ञान देता है वह शिक्षक हो सकता है, गुरु नहीं

महिलाओं ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई है अपनी पहचान

इंदौर (नईदुनिया रिपोर्टर)। गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज द्वारा गुरुवार को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया।

इसमें उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेश टी. सिल्लावट ने कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महिलाओं के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर परिचर्चा और वेबिनार आयोजित कर समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत कराना।

डॉ. स्वाति पाठक ने कहा कि एक सशक्त महिला समाज में बड़े परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने कहा आज महिलाओं ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की है। केवल कुशल गृहिणी की सीमित परिभाषा को बदलकर कुशल प्रशासक, राजनीतिक, न्यायाधीश, चिकित्सक, अभियंता, शिक्षक, लेखिका के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। महिलाएं अत्याचारों के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने लगी हैं।

महिलाओं को उन्नति के समान अवसर मिले हैं

डॉ. ज्योति जैन ने कहा कि महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के उन्नति के समान अवसर मिले हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। हालांकि अभी भी कानून की सही जानकारी नहीं होने से अधिकांश महिलाएं शोषण का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के कानूनी अधिकार पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल की रजिस्ट्रार नीता गुप्ता ने भी जानकारी दी। वेबिनार के संयोजक और कॉलेज के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. पूनम भटनागर ने कहा कि वेबिनार के कार्यक्रम से महिलाओं को अपने कर्तव्य स्थल पर उनके लिए भारत के संविधान में निश्चिततापूर्वक कार्य करने के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी भी मिलती है। राष्ट्रीय वेबिनार में कई प्रदेशों के साथ ही अमेरिका, लंदन, दुबई और अन्य देशों से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनामिका जैन ने किया। कार्यक्रम में डॉ. प्रीति चतुर्वेदी, अंगूरबाला बाफना, डॉ. तोषीह अब्बासी, डॉ. प्रतिभा मुजुमदार सहित कई प्रोफेसर भी मौजूद थे।

इंदौर, गुरुवार
9 जुलाई 2020

2

प्रभातकिरण

महानगर

‘बेटियों के लिए सोच बदलें माता-पिता’

इंदौर, नगर
प्रतिनिधि।
महिलाओं को
आरक्षण की
जरूरत नहीं। वे
इतनी मजबूत हैं
कि बिना आरक्षण
हर क्षेत्र में पहचान
बना सकती हैं।
आरक्षण कमजोर
होने का अहसास दिलाता है।



होलकर साइंस महाविद्यालय का वेबिनार

साहित्यकार ज्योति जैन ने होलकर विज्ञान
महाविद्यालय के ‘महिला सशक्तिकरण और लैंगिक
समानता’ पर राष्ट्रीय वेबिनार में कहा कि फिल्म और
क्रिकेट लोगों के बीच गहरी पैठ बनाते हैं। यहां लड़की
को लड़के से कम पैसा मिलता है। फिल्मों में पचास
साल का आदमी भी जवान दिखाया जाता है, लेकिन
महिला को नहीं। महिला खिलाड़ियों को विज्ञापन में नहीं
लिया जाता। इन क्षेत्रों से भी लैंगिक समानता पर आवाज
उठना चाहिए। माता-पिता को यह सोच बदलना होगी कि
लड़की को किचन सेट या गुड़िया लेकर दी जाए और
लड़के को बाकी खिलौने। समानता के अधिकार की
शुरुआत घर से करना होगी, क्योंकि अब दौर बदल रहा
है, जहां लड़के किचन सेट खरीदते हैं, लड़कियां नहीं।

रतलाम से पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर डॉ. स्वाति
पाठक ने बताया कि सशक्त महिला समाज बदलाव ला
सकती है। महिलाओं ने राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

मुकाम हासिल किया
है। कुशल गृहिणी के
मायने कुशल
प्रशासक,
राजनीतिक, जज,
डॉक्टर, इंजीनियर
और लेखक के रूप
में सामने आ रही हैं।
महिलाएं जुल्म
के खिलाफ भी

आवाज बुलंद करने लगी हैं। भोपाल से रजिस्ट्रार लॉ
नेशनल यूनिवर्सिटी न्यायाधीश नीता गुप्ता ने कहा कि
कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के
लिए कानून हैं, लेकिन सही जानकारी न होने से वह
शिकार होती रहती हैं।

उच्च शिक्षा इंदौर के अतिरिक्त संचालक सुरेश
टी सिलावट ने कहा कि समाज में महिलाओं पर
होने वाले जुल्मों पर काबू पाने के लिए मुहिम
जरूरी है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता
के कार्यक्रम से सामाजिक बंधनों और भेदभाव से
निजात मिलेगी। उन्हें अपने अधिकारों और बनाए
कानून का ज्ञान होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉ. पूनम
भटनागर ने बताया कि वेबिनार का मकसद
महिलाओं को अधिकारों से रूबरू कराना था। इसमें
देश-विदेश के एक हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने
रजिस्ट्रेशन कराया। संचालन रसायन शास्त्र की
विभागाध्यक्ष डॉ. अनामिका जैन ने किया।

रा नीके पर
। अतः
मिलने पर
नके सुपुर्
एक भाषण
। निष्पत्ति
को पर की
एक भटक
अनेकी द्वारा
की गई ।
। अतः को



कानूनों की सही जानकारी न होने से महिलाएं शोषण का शिकार

इंदौर - राज न्यूज नेटवर्क

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों के प्रति है। जिन पर परिवर्धन और वैश्वीकरण आन्दोलन का समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अन्यायों पर काफी हद तक अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जगज्जल है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति उन्मुख बनाने का यह कदम है। अन्तर्गत कार्यक्रमों में। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं उत्प्रेरण समिति की ओर से आन्दोलन किया जा रहा है।

हीलकर सार्वजनिक कॉलेज में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिलाओं के सम्बन्धी विकास और सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्यों में, लैंगिक समता, उनकी प्रेस काव्यू अभिकारों की जासकती, सामाजिक बंधन, भेदभावपूर्ण दमन, कुनैतियों में निजत दिलवाना, सम्मेलन में डॉ. कर्मात पाठक में महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एक सशक्त महिला समाज में आत्मसुल परवर्तन ला सकती है। आज महिलाओं ने अपनी महत्वा

राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बरन अंतराष्ट्रीय स्तर पर सम्पादित की है।

अत्याचारों के प्रति बुराद करने लगी हैं अखबार

केवल कुशल छापी की सीमित परिभाषा को बदलकर कुशल प्रारम्भिक राजनीतिक, न्यायाधीश, निष्पक्षक अधिवक्ता, शिक्षक, लेखिका के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। वह अलगावधारी के प्रति अपनी अलग-थलग भावना रखती है। डॉ. ज्योति बोर ने महिलाओं की बिना किसी लैंगिक भेदभाव के उनकी के समान अवसर मिले पर गर्व की। कार्यालय पर महिलाओं को तीन उत्तीर्ण से सम्मान के लिए प्रशस्ति दिए गए हैं, पर अभी भी हममें से अधिकांश को कानूनी की राह सामक्या नहीं होने के अभाव में महिलाएं जोषण का शिकार हो रही है। योनिहार की समीक्षा के प्रश्नों, महिला सरकारीकरण प्रयोगों की पूर्ण भद्रता में बताते योनिहार के कार्यक्रमों से महिलाओं की अपने जीवन में स्थान पर उनके लिए भारत के समीक्षण में निष्पक्षक प्रत्येक कार्य करने के लिए कौन-कौन सी कानूनी सहायता मिल सकती है, इसकी जानकारी मिलेगी।



परिचर्चा-वेबिनार से अत्याचारों पर लगाया जा सकता है अंकुश

‘महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता’ पर राष्ट्रीय वेबिनार

दबंग रिपोर्टर ■ इंदौर

राजस्थानीय होलकर विशाल महामित्रालय में ‘महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता’ विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन महिला सशक्तिकरण एवं उत्पीड़न रमिती द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशानुसार किया गया। इसका शुभारंभ डॉ. सुरेश टी सिलावट अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा इंदौर संभाग एवं प्राचार्य राजस्थानीय होलकर विशाल महामित्रालय ने किया।

डॉ. सिलावट ने कहा कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकार के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर परिचर्चा और वेबिनार आयोजित कर समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों पर काफी दृढ़ रक्त अंकुश लगाया जा सकता है। जरूरत है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति बनाए गए कानूनों से अवगत कराने की। महिला के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के प्रमुख उपदेश लैंगिक समानता, उन्हें प्राप्त कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, सामाजिक

बंधनों, भेदभावपूर्ण दल्लतों, कुशक्तियों से निजात दिलाना है।

कानून की नहीं है सही जानकारी

वेबिनार में डॉ. स्वाति पाठक ने महिला सशक्तिकरण पर विचार रखते हुए कहा कि एक सशक्त महिला समाज में आमुलमुल परिवर्तन ला सकता है। आज महिलाओं ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की है। केवल कुशल महिला की सीमित परिभाषा को बदलकर कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, चिकित्सक, अभियंता, शिक्षक, लेखिका के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। यह अत्याचारों के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने लगी है। डॉ. ज्योति जैन ने महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के उन्नति के समान अवसर मिलें पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्षेत्र पर महिलाओं को बोन उत्पीड़न से बचाव के लिए प्रबंधन किए गए हैं, पर अब भी हमारे से अधिकारी को कानूनों की सही जानकारी नहीं होने के अभाव में महिलाओं की शिकायतों का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के कानूनी अधिकार पर न्यायाधीश नीता गुप्ता, राजेश कुमार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मोरारत ने विस्तृत जानकारी दी।

[illegible]

100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया प्रदर्शन करेंगे।

कि जल्द काम पूरा हो जाएगा। सकती है।

मानसिक व भावनात्मक संतुलन कोरोना काल की आवश्यकता

6pm नगर प्रतिनिधि, इंदौर

शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय की युवा रेडक्रास सोसा. व महिला सशक्तिकरण इकाई द्वारा 30 जुलाई को मेटल हेल्थेंड कोविड-19 विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इसमें देशभर के 15 राज्यों से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया।

वेबिनार कोरोना काल में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित रखें, इस उद्देश्य से आयोजित किया गया। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है एवं विश्वभर में महामारी से निजात के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति में डर का माहौल है। प्रश्न उठता है कि इस विषय परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। वेबिनार के उद्घाटन अवसर पर डॉ. सुरेश टी. सिल्लावट, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग व प्राचार्य होलकर विज्ञान महाविद्यालय ने उद्बोधन में कहा कि कोरोना संक्रमण काल में बीमारी की रफ्तार को कम करने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना जरूरी है,

जिसके कारण नीरसता का भाव पैदा हो रहा है। अतः मानसिक भावनाओं को संतुलित बनाये रखने के लिए इस तरह के विषय पर वेबिनार आवश्यक है। इसी तरह वक्ता डॉ. अशोक जैन ने मैनेजिंग स्ट्रेस ड्यूटिंग कोरोना क्राइसिस पर बड़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान दिया। इसमें उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि इस स्ट्रेस एंजाइटी व डिप्रेशन को काबू में रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा महसूस करें व नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित न हों। स्ट्रेस मानव शरीर की बहुत सी जैव रसायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, खहामौनल असंतुलन पैदा करता है, जिससे कई तरह की बीमारियां एवं नकारात्मक भौतिक बदलावा उत्पन्न होते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों के बारे में सुनकर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन में रहना चाहिए। इस कोरोना काल में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सदा व्यस्त रहें एवं हमेशा मुस्कुराते रहें। वेबिनार के

द्वितीय अतिथि वक्ता सामाजिक एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ डॉ. संदीप अत्रे ने इमोशनल वेल बीइंग ड्यूटिंग कोरोना क्राइसिस पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया हमारे विचार, भावनाएं एवं व्यवहार हमारे इमोशनल वेल बीइंग को नियंत्रित करते हैं। अच्छा काम करने से हमें अच्छा महसूस होता है। अपनी दिनचर्या को नियमित व नियंत्रित रखकर जो भी काम करें, वो पूर्ण तल्लीन होकर करें। भावनात्मक तौर पर अपने लिए समय निकालें और साथ ही सभी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। वैचारिक दृष्टिकोण से एक समय पर एक कार्य करें एवं अपने विचारों पर हमेशा नजर रखें एवं उन्हें गलत दिशा में न जाने दें, बल्कि नई सकारात्मक दिशा देने की कोशिश करें। कार्यक्रम का आयोजन डा. पूनम भटनागर, प्रभारी महिला सशक्तिकरण के निर्देशन में डॉ. अंगूरबाला बाफना, प्रभारी युवा रेडक्रास सोसा. ने किया। स्वागत परिचय डॉ. अनामिका जैन, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र ने दिया। संचालन प्रो. शीतल उइके ने किया व आभार प्रो. तस्मीन रंगवाला ने माना।



Health checkup camp	Women Empowerment and Arvindo Medical College	29/10/18-30/10/18
---------------------	---	-------------------



Women Self-Defence Programme “KAVACH”	Under the aegis of Mahila Suraksha Samiti (City Level), Women Empowerment Cell and Office of Police Superintendent, Indore (West) and Martial Art Association	7/09/2019
--	--	------------------





Felicitating Women from Different fields on International Women's Day



Health Checkup Camp jointly conducted by Women Empowerment Cell and NSS











Govt. Holkar (Model, Autonomous) Science College, Indore, M.P [INDIA]

Grade "A" Accredited by NAAC

Webinar on

"Mental Health and Covid 19"

Organized by Yuva Red Cross Society and Women Empowerment Cell



Date: 21st July 2020

Platform: Zoom Meeting App

Last date for registration: 19th July 2020 till 5.00 PM

Link for Registration: <https://forms.gle/FXCnpEf9rATaErEM6>

Time : 11.30 AM- 2.00 PM

e- certificate will be given to registered participants.



Patron

Dr. Suresh T. Silawat

Additional Director, Higher Education, Indore Division &
Principal

Co-ordinator

Dr. Poonam Bhatnagar
Women Empowerment Cell

Convener

Dr. Angurbala Bafna
Yuva red Cross Society

INVITED SPEAKERS



Speaker 1 - Dr. Ashok Jain

Retired Professor of Psychology
Shri Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts and Commerce College,
Indore

Topic: Managing stress during corona crisis



Speaker 2 – Mr. Sandeep Atre

Expert and Founder of Socialigence
Founder- Directors of CH EdgeMakers- a leading coaching
and Training Centre
Indore

Topic: Emotional well being during corona crisis

Organizing Committee

Dr. Anamika Jain
Dr. Preeti Chaturvedi
Dr. Tausheeh Abbasi

Dr. Pratibha Mujumdar
Dr. Pramila Kori
Dr. Seemavati Sisodiya

Technical Support

Dr. Netram Kaurav
Prof. Tasneem Rangwala
Prof. Sheetal Uikey



Dr. Poonam Bhatnagar, Incharge, women Empowerment Cell and Women Security Committee



विभिन्न क्षेत्रों में Nss स्वयंसेवकों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमे बच्चों ने बड़ चढ़कर भाग लिया।



शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय
राष्ट्रीय सेवा योजना




भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
द्वारा 8 से 10 जनवरी तक देश भर में "स्वस्थ
बालक बालिका स्पर्धा" का आयोजन किया गया।


इसके अंतर्गत

1. कुपोषण की जांच एवं जागरूकता

2. वजन चेक

3. बालक बालिकाओं में चित्रकला प्रतियोगिता का
आयोजन
किया गया।





आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर बच्चों का वजन किया गया एवं उनके पोषण स्तर को जांचा गया।

Name of Activity:- Swasth Balak Balika Sparda (Healthy Boy & Girl Child) Contest

No. of Students:- 38

No. of Teachers:-02

Report:- (Healthy Boy & Girl Child) Contest: Nurturing Health and Awareness

The (Healthy Boy & Girl Child) Contest, organized by the NSS Unit of the College, was a dedicated effort to promote the well-being and health of young children. This initiative aligned with the directives of the Ministry of Woman & Child Development, Government of India, and aimed to raise awareness about malnutrition, conduct health assessments, and engage children in a constructive and creative activity.

Event Overview:

From January 8th to 10th, 2022, the enthusiastic volunteers of the NSS Unit embarked on the "Swasth Balak Balika" competition. This comprehensive activity involved engaging with children and families in the adopted village, Anganwadi office, and primary school. The volunteers focused on creating awareness about malnutrition, conducting health assessments, and fostering creativity through a drawing competition.

Key Activities:

Awareness Campaign: Volunteers diligently worked to raise awareness about the importance of proper nutrition and its impact on children's growth and development. They engaged with parents and caregivers, sharing valuable insights to combat malnutrition.

Health Assessments: The volunteers conducted health assessments, including weight and height measurements, to monitor the nutritional status of children. These assessments helped identify potential health concerns and provide timely intervention.

Nutritional Education: Children were educated about the significance of a balanced diet and the importance of consuming nutrient-rich foods for their overall health and well-being.


Drawing Competition: To encourage creativity and self-expression, a drawing competition was organized for the children. Through their artistic endeavors, children conveyed their understanding of health, nutrition, and the joy of being healthy.

Collaboration with Institutions: The NSS Unit collaborated with the Anganwadi office and primary school to maximize the reach and impact of the "Swasth Balak Balika" competition.

The successful execution of the event was made possible due to the unwavering guidance and supervision of our committed Programme Officers, Dr. Seemavati Sisodiya and Dr. Sandeep Kumar

Gohar. Their dedication ensured the effective implementation of the initiative, resulting in a positive experience for all participants.

Activity Incharge

7	Photo of Activity:	
---	--------------------	--

Signature of Activity In charge

EXTENSION AND OUTREACH PROGRAM

S. No	Component/Activities	Details of event
1	Name of the Department / Unit / Agency:	09 MP BN NCC HSC INDORE
2	Name of the Activity:	SAHSI PROGRAMME: Making of the Fearless अहम् अस्मि योद्धा
3	Name of the Scheme:	Training Programme for girls for self-protection
4	Date and Year of the Activity:	31.10. 2018
5	Number of Students Participated in the activity:	16
6	Report of the Activity : Mission Sahasi was launched to train the girls for self-protection. 8 SW of 09 MP BN NCC HSC went to other colleges to train other SW about martial art , to protect themselves. This is the art that confined system and traditional of combat practiced for a number of reason such as self-defence, military and law enforcement applications, competition; physical ;mental and spiritual development; entertainment and the preservation of nation intangible culture heritage.	

The most recent example of this is point shooting which relies on muscles memory to more effectively utilize a firearm. GRANDMASTER SHIFFU BHARDWAJ trained THE CADETS.

Impact of the Activity:

The Mission Sahasi initiative, launched to train girls in self-protection, had several positive impacts:

Empowering Girls: By providing self-protection training to girls, Mission Sahasi empowered them with essential skills and knowledge to defend themselves in challenging situations. This increased their confidence and sense of security, promoting gender equality and women's empowerment.

Skill Development: The training in martial arts and combat techniques helped the girls develop valuable physical and mental skills. These skills not only enhance their ability to protect themselves but also contribute to overall physical fitness and mental well-being.

Spreading Awareness: The cadets from 09 MP BN NCC HSC took the initiative to train other SW (SW might stand for Senior Wing) in different colleges about martial arts and self-protection. This created awareness about the importance of self-defense and encouraged more girls to take up such training for their safety.

Collaboration and Leadership: The cadets' efforts to train others showcased their leadership and collaborative abilities. By taking the initiative to teach and share their knowledge, they demonstrated their commitment to the cause of self-protection and community development.

Preservation of Cultural Heritage: The practice of martial arts as a form of self-defense carries the intangible cultural heritage of the nation. By training in these traditional combat techniques, the cadets contributed to preserving this aspect of the country's culture.

Point Shooting Technique: Learning the point shooting technique, which relies on muscle memory for effective firearm usage, can significantly enhance the cadets' self-defense capabilities. This specialized training prepared them to handle challenging situations effectively.

Personal Safety Awareness: The Mission Sahasi training fostered a sense of personal safety awareness among the participating girls. They learned to be vigilant and prepared to protect themselves from potential threats.

Role Model Effect: The cadets trained by Grandmaster Shiffu Bhardwaj can serve as role models for other girls, inspiring them to take up self-defense training and build confidence in their ability to protect themselves.

Spreading the Message: As the trained cadets spread their knowledge to other colleges, the impact of the initiative extended to a wider audience, promoting the importance of self-protection and encouraging more girls to participate in similar programs.

Mission Sahasi's initiative to train girls in self-protection through martial arts had a significant positive impact. It empowered girls with essential skills, promoted gender equality, and contributed to their physical and mental well-being. The training efforts of the cadets and their collaboration in spreading the message created awareness about self-protection, making a valuable contribution to the community's safety and well-being.

7

Photo of Activity:





cadets participated: 16

1. CDT AANCHAL VERMA – MP19SWA433653
2. CDT MADHURI – MP19SWA433657
3. CDT JAGRATI PATEL – MP19SWA433655
4. CDT KIRAN DAYMA – MP19SWA433656
5. CDT SIMRAN – MP19SWA433659
6. CDT RITIKA SHARMA – MP19SWA433658
7. CDT VAIDAVI AMBADE – MP19SWA433660
8. CDT ISHIKA PANCHARIYA – MP19SWA433654
9. CPL REENA BARFA – MP18SWA433662
10. UO SONALI CHAWDA – MP18SWA433663
11. SGT. SURBHI JOSHI – MP18SWA433664
12. CDT MONIKA PANWAR – MP18SWA433657
13. CDT. ARADHANA DHAKAD – MP18SWA43

	14. CDT. POORNIMA PATHAK – MP18SWA433660 15. CDT. RAJ RAJESHWARI BHOSLE – MP18SWA433661 16. CDT MANISHA PRAJAPAT – MP18SWA433658
--	--

NCC Activity In charge



CONFERENCE / WEBINAR / FDP ON

महिला सशक्तिकरण

हिंदी विभाग, शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर
23-Jul, 2022 To 26-Jul, 2022

00_D : 00_H : 00_M : 00_S



WEBINAR



WELCOME TO CONFERENCE / WEBINAR / FDP

महिला सशक्तिकरण



महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं।

महिलाओं के सशक्त होने से उनमें अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ताकि वे एक पूर्ण नागरिक के रूप में अपने देश एवं मानवता की सेवा में सहायता पहुँचा सकें। विश्व जननी समझी जाने वाली नारी भी समाज अथवा राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, किन्तु आज संसार की आधी आबादी माने जाने वाली महिलाओं के अधिकारों का सर्वत्र हनन हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की सार्थकता यह है कि उन्हें इतना योग्य बनाया जाये कि वे अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचान सकें और इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें।

Registration



Registration Date

Registration



19-Jul, 2022



25-Jul, 2022

Our Organizer Team



Dr. Suresh T. Silawat

संरक्षक

प्राचार्य, शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान
महाविद्यालय, इंदौर एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च
शिक्षा इंदौर संभाग



Dr. R. C. Dixit

प्रशासनिक अधिकारी

प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र विभाग



Dr. Manorama Agrawal

संयोजक

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग

Speakers Who Are Experts in Their Fields

सुश्री अनुपा कार्यक्रम अधिकारी

**लैंगिक भेदभाव के परिदृश्य में
सशक्तिकरण की आवश्यकता**

पहल जन सहयोग विकास संस्था।

📅 23/07/2022



02:00 PM

03:00 PM



WEBINAR

02:00 PM
03:00 PM

महिला अधिकार, महिला सुरक्षा एवं कानून।

(सेफसिटी कार्यक्रम) महिला बाल विकास विभाग इन्दौर (म.प्र.)

📅 25/07/2022

डॉ. दिव्या गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ

महिला स्वावलंबन - एक कदम विकास की ओर

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला संस्था की संस्थापक व अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसायटी की जिला संयोजक

📅 26/07/2022

02:00 PM
03:00 PM

Organization Department


हिंदी विभाग

शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर

WEBINAR



महिला सशक्तिकरण






- › Home
- › About
- › Certificate
- › Contact

Get in Touch

23-Jul, 2022 To 26-Jul, 2022
 **TIMEING**

hindi@collegeholkar.org
 **MAIL TO US**

हिंदी विभाग, शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर
 **ADDRESS**

Copyright © 2022 All Rights Reserved by **webinar.holkar.org**

[Terms of Service](#)

[Privacy Policy](#)

Women Empowerment Event

S. No	Component/Activities	Details of event
1	Name of the Department / Unit / Agency:	NSS (UNIT 1 & 2)
2	Name of the Activity:	Mahila atma raksha Maha-Abhiyan 19-20
3	Name of the Scheme:	National Service Scheme
4	Session of the Activity:	2019 2020
5	Number of Students Participated in the activity:	118 Volunteers & 04 Teachers
6	<p>Report of the Activity:</p> <p>In the present scenario, there has been increasing incidents of exploitation, molestation and other heinous acts against girl child & women. These incidents have been observed not only in society but also the working women has to deal with such situations at their working places. A training programme for all the girls & female staff members was organized as Mahila Atma Raksha Kavach Abhiyan. In this training, they were given information about the related laws like POSCO Act, government initiative and how they can keep themselves safe. The programme organizer Dr. Seemavati Sisodiya (NSS PO), Dr. Angoorbala Bafna, Dr. Poonam Bhatnagar, and Dr. Preeti Chaturvedi successfully conducted it under the guidance of Dr. Suresh T. Silawat Principal & Additional director Indore Division.</p> <p>Impact of the Activity:</p> <p>The Mahila Atma Raksha Kavach Abhiyan, a training program organized for all the girls and female staff members, addresses the pressing issue of increasing incidents of exploitation, molestation, and other heinous acts against women and girls. In the present scenario, such incidents have been observed not only in society but also within working places, making it essential to empower women with knowledge and tools to protect themselves. Let's explore the potential impacts of this training program:</p>	

Awareness and Education: The training program likely provided valuable information about related laws, such as the POSCO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act), and government initiatives aimed at safeguarding women and girls. Awareness of these laws can help individuals understand their rights and seek appropriate action when needed.

Personal Safety: Participants of the training were likely educated on various strategies and techniques to enhance their personal safety in different situations. This knowledge can boost their confidence and help them make informed decisions when faced with potential threats.


Prevention and Reporting: Equipping the girls and female staff members with information about personal safety and relevant laws empowers them to prevent, identify, and report any instances of harassment or exploitation. This can play a crucial role in deterring potential offenders and ensuring timely intervention in case of an incident.

Creating a Safe Environment: By providing training to all girls and female staff members, the program promotes a safer and more supportive environment within the college or workplace. When everyone is aware and vigilant about women's safety, it can lead to a culture where such acts are not tolerated, and support is readily available for victims.

Empowerment and Confidence: Learning about safety measures and legal rights can empower women and girls, boosting their self-confidence and sense of self-worth. Empowered individuals are more likely to stand up against injustice and take action to protect themselves and others.

Crisis Management: The training program may have included guidance on how to handle crisis situations and whom to contact for assistance. Preparedness in such situations can make a significant difference in minimizing harm and seeking help promptly.

Leadership and Collaboration: The successful organization of the program under the guidance of Dr. Suresh T. Silawat, the college Principal, highlights the importance of leadership support in addressing women's safety issues. Collaboration among Dr. Seemavati Sisodiya, Dr. Angoorbala Bafna, Dr. Poonam Bhatnagar, and Dr. Preeti

	<p>Chaturvedi also demonstrates the significance of teamwork and collective efforts in promoting women's safety.</p> <p>Long-term Impact: The training program's impact may extend beyond the immediate participants, as they may share their knowledge and experiences with others, creating a ripple effect of awareness and empowerment.</p> <p>The Mahila Atma Raksha Kavach Abhiyan training program likely had a positive impact by empowering women and girls with knowledge, fostering a safer environment, and encouraging collective action against gender-based violence and exploitation. Such initiatives are crucial steps towards building a society where women and girls can live free from fear and discrimination.</p>
7	<p>Photo of Activity:</p> 

Activity In charge



3.7.1 MoU Report on Collaborative activities between
(Between Govt. Holkar (Autonomous Model) Science College, Indore)
&
(Bherulal Patidar Govt. P. G. college, MHOW)

REPORT OF ACTIVITY :

Empowering Diversity in Science: IUPAC Global Women's Breakfast - A Transformative Event as an MoU partner.

Date: 16.02.2022

Bheru Lal Patidar Government PG College MHOW orchestrated a momentous International webinar in collaboration with the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) on February 16, 2022. This global event, aptly titled "IUPAC Global Women's Breakfast: Empowering Diversity in Science," marked a significant stride towards celebrating the achievements of women in the realm of science and inspiring future generations to embrace science careers.

Collaborative Efforts and Coordinated Event:

The event was masterfully coordinated by the Association of Chemistry Teachers (ACT), in partnership with the Homi Bhabha Centre for Science Education, Mumbai, India.

This extraordinary initiative was steered by the Chemical Association and the Department of Chemistry, operating under the umbrella of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) and the World Bank's MPHEQIP's academic excellence initiative.

Global Women's Breakfast: A Unifying Endeavor: The Global Women's Breakfast, an annual event held in conjunction with the UN Day of Women and Girls in Science, occurred on a single day in February.

Its overarching goal was to recognize and celebrate the contributions of women in science while igniting a passion for scientific pursuits among the younger generation.

The 2022 theme, "Empowering Diversity in Science," aimed to address gender imbalances in the field.

Participants from diverse science organizations globally, irrespective of their field of specialization, united to share breakfast experiences either virtually or in-person.

Fostering Gender Equality: Beyond celebration, the event had a profound mission - to build a robust network of both men and women devoted to dismantling gender disparities in science. A key focus was to establish

connections at local, regional, and international levels, facilitating the exchange of ideas and strategies to drive progress.

Influence of Advisory Partners: The Department of Chemistry, Government Holkar Science College, Indore, played a pivotal role in the event as part of the advisory board.

This involvement was a testament to the effective execution of an initiative stemming from an MOU, contributing to the broader vision of equality in science.

Positive Reception and Lasting Impact: The event's profound impact was palpable, resonating with participants across the board.

Dr. Anamika Jain, Professor and Head, Govt. Holkar (Model Autonomous) Science College, Indore, emerged as a key member of the advisory committee, exemplifying the commitment of MOU partners.

The event not only ignited meaningful conversations but also provided a fresh perspective on advancing gender equality in science.

Impact:

The IUPAC Global Women's Breakfast marked a significant stride towards fostering diversity and gender equality in the realm of science. By uniting minds, sharing experiences, and championing an inclusive vision, the event heralded a brighter and more equitable future for the scientific community. The collective efforts will undoubtedly leave an indelible mark on the pursuit of gender equality in science.

International Women's day 2017-2018

S. No	Component/Activities	Details of event
1	Name of the Department / Unit / Agency:	NSS (UNIT 1 & 2)
2	Name of the Activity:	International Womens Day 17-18
3	Name of the Scheme:	National Service Scheme
4	Date and Year of the Activity:	08 March 2018
5	Number of Students Participated in the activity:	215 Students & 06 Teachers
6	<p>Report of the Activity : International Women's Day is celebrated world over on the eight day of March. It was also celebrated in our college on 8th March 2018 by NSS in collaboration with red ribbon club and red cross society. It was organised with an objective to create awareness of gender equality for a healthy society and to give basic information for a girl child education in every family among the society. This will further result in overall development of nation and the community. Event was enthusiastically hosted by Dr. Seemavati Sisodiya, Dr.Angoorbala Bafna & Dr. Poonam Bhatnagar. The programme was successfully done under the guidance of Dr.Arun Kher sir, Principal of the college.</p> <p>The celebration of International Women's Day on March 8th, 2018, in college by NSS (National Service Scheme) in collaboration with the Red Ribbon Club and Red Cross Society reflects the commitment of the college community to promoting gender equality and education for girls. The event aimed to raise awareness about the importance of gender equality and provide essential information about girl child education, with the overarching goal of contributing to the overall development of the nation and the community.</p> <p>Key highlights and impact of the event:</p> <p>Promoting Gender Equality: By dedicating this day to celebrating women and advocating for gender equality, the event contributed to raising awareness about the need to eliminate gender-based discrimination and biases. It emphasizes the importance of creating a society where women have equal opportunities and rights.</p> <p>Empowering Girls through Education: The focus on providing basic information about girl child education highlights the significance of educating girls. Education can empower girls to break free from traditional constraints and play a more active and</p>	

informed role in society, leading to their personal growth and the betterment of the community.

Health and Awareness: The involvement of the Red Ribbon Club likely brought attention to health-related issues, particularly those concerning women. It may have included discussions about women's health, reproductive rights, and HIV/AIDS awareness.

Community Participation: Collaboration between NSS, Red Ribbon Club, and Red Cross Society shows the importance of collective efforts in addressing societal issues. Involving different organizations and societies fosters a sense of unity and collective responsibility towards gender equality and social development.

Inspiration and Role Models: The enthusiastic hosting of the event by Dr. Seemavati Sisodiya, Dr. Angoorbala Bafna, and Dr. Poonam Bhatnagar likely served as inspiration and role models for the college community. Having dedicated and proactive individuals leading such initiatives encourages others to get involved in social causes.

Leadership Support: The guidance of Dr. Arun Kher, the college Principal, was crucial in the successful organization of the program. Leadership support plays a significant role in promoting and implementing initiatives for gender equality and education

Lasting Impact: Celebrating International Women's Day is not just a one-time event; it can leave a lasting impact on the college culture. By emphasizing the importance of gender equality and education, the college community may continue to prioritize such values in its future endeavors.

The celebration of International Women's Day in your college contributed to creating awareness about gender equality and the importance of girl child education. Such events play a vital role in fostering a more inclusive, informed, and supportive community, where women can actively participate and contribute to the nation's progress and development.

7


Photo of Activity:






Activity In charge

EXTENSION AND OUTREACH PROGRAM

S. No	Component/Activities	Details of event
1	Name of the Department / Unit / Agency:	NSS (UNIT 1 & 2)
2	Name of the Activity:	International Womens Day 20-21
3	Name of the Scheme:	National Service Scheme
4	Date and Year of the Activity:	08/03/ 2021
5	Number of Students Participated in the activity:	88 Volunteers & 05 Teachers
6	<p>Report of the Activity (in 100 words):</p> <p>International womens day was celebrated on 8th March 2021 by exhibition of the received posters from the volunteers. The whole programme was started one week prior to the international womens day. On this occasion alongwith poster presentation the volunteers also participated in the slogan writing & esaay writing competition. The main highlight of the activity was that the boys also showed keen interest in these activities. At the end the result of all these activities were adjudged by Dr. Indu Tiwari (HOD English Dept.), Dr. Angoorbala Bafna (HOD. Biochemidstry Dept.) & Dr. Swarna Tanwani. The entire programme was performed under the guidance of respected Dr. Anshu T. Silawat, Principal & Additional Director Higher Education, Indore Division.</p>	

	<p>e of our Volunteer Kumari Riya Chaturvedi participated in the programme on Beti Bachao-Beti Padhao Abhiyan organized by Women and Child Development Department District Indore (M.P.). She was declared as best performer by declaring her as gender champion. The programme was organized under the supervision of programme officers Dr. Seemavati Sisodiya, Dr. Sandeep kumar Gohar under the guidance of Dr. Suresh T. Silawat, Principal and additional director Indore Division</p>	
7	Photo of Activity:	
9.	Poster of Activity	Enclosed



10	List of Participants	<p style="text-align: center;"><u>परिणाम</u> 8/3/2021</p> <p>1. मोरत चौधरी — प्रथम</p> <p>2. अतुल वर्मा — द्वितीय</p> <p>2. भिक्षु जैन — द्वितीय</p> <p>3. मनिता ली भास्कर — तृतीय</p> <p>3 भावना कोरी — तृतीय</p> <p style="text-align: center;"><u>विद्यार्थियों के हस्ताक्षर</u></p> <p>1. श्री. अतुल वर्मा — </p> <p>2. श्री. अंगुलवा भास्कर — </p> <p>3. श्री. सुवर्णा ललितानी — </p>
----	----------------------	--


Signature of Activity In charge

Note: 1). Please use Time New Roman font with 12 font sizes.


2). Delete extra rows if data is not available.

3). Preserve the word file in your computer.





Poster Presentation by Volunteers





Rashtriya balika Divas (24/01/2022)



The screenshot displays a Zoom meeting interface for a 'Rashtriya Balika Divas' event on 24/01/2022. The main video window shows a woman speaking. The right sidebar lists participants, and the bottom section shows a grid of participant thumbnails.

Participants (from top to bottom in the grid):

- Chetna Sotiya
- Neeraj Soti
- Alshwarya To...
- Sanskrit Rajput
- Leesa Bhiskar
- Bhushan Sonawa
- Nitin Sonni...
- Sakshi Pan...
- raajeev j...
- Nirima Mavi
- Rakesh Kumar C...
- Vanahika Rai AV...
- Unnati Jain
- 40 others
- Deena...
- Ajay Verma
- Sakshi Patankar
- Sandhya Sangat
- Alshwarya To...
- Nitin Sonni...
- Rakesh Kumar C...
- Leesa Bhiskar
- Innocent narm...
- 29 others
- Alshwarya To...
- Sanskrit Rajput
- Leesa Bhiskar
- Bhushan Sonawa
- Nitin Sonni...
- Sakshi Pan...
- raajeev j...
- Nirima Mavi
- Rakesh Kumar C...
- Vanahika Rai AV...
- Unnati Jain
- Neeraj Soti...
- Innocent narm...
- Priya Ujale
- priyanka lachhe...
- Yogita Pardeshi
- Anjali Khangode
- Sandhya Sangat
- Ujjorastad B...
- Mix_Mewade
- Khushi Sheroke
- Shivani Panchit...
- Vaishali Kori
- Rishika Pardeshi
- ROSHNI JAIN J...
- Anand Patidar
- Dindayal Patidar
- Nirima Mavi
- Yogita Rathod
- Vikash Tripathi
- Aisha Rajput
- Aakanksha Cho...
- Monika Soni
- Ishna Zurange
- Aditi Shukla
- Kirtee chadar
- Deepthi Prabhak...
- 3 others
- You

Name of Activity:- Rashtriya balika Divas .

No. of Students:-

No. of Teachers:-

Date :- 24/01/2022

Report:-

Webinar on Rashtriya Balika Divas: Empowering Girls for a Bright Future

A webinar on Rashtriya Balika Divas was organized on January 24th, 2022, with the aim of shedding light on the significance of empowering girls, promoting gender equality, and fostering their holistic development. This virtual event provided a platform for insightful discussions and knowledge-sharing, contributing to the collective efforts towards creating a more inclusive and equal society.

Webinar Highlights:

The webinar on Rashtriya Balika Divas encompassed a series of engaging sessions, expert talks, and interactive discussions, all focused on empowering girls and promoting their well-being and potential.

Key Sessions:

Inaugural Address: The webinar commenced with an inaugural address by a prominent figure in the field of gender equality and education, emphasizing the importance of recognizing and supporting the rights of girls.

Expert Talks: Esteemed experts shared their insights on various aspects of girl empowerment, including education, health, legal rights, and the role of society in nurturing their growth.

Gender Equality and Social Change: A session was dedicated to discussing the role of gender equality in fostering positive social change and the collective responsibility to challenge stereotypes and biases.

Success Stories: Inspirational stories of girls who have overcome challenges and achieved remarkable success were shared, showcasing the immense potential and resilience of young girls.

Education and Empowerment: The significance of education in empowering girls and enabling them to lead independent and fulfilling lives was a central theme of the webinar.

Interactive Q&A: Participants had the opportunity to engage in a lively Q&A session with the speakers, where they could seek clarifications, share their thoughts, and gain deeper insights.

Empowerment Initiatives:

During the webinar, the following initiatives were highlighted:

Educational Opportunities: Information about scholarships, educational programs, and skill development initiatives aimed at empowering girls and supporting their academic pursuits.

Health and Well-being: Discussions on the importance of ensuring access to quality healthcare, nutrition, and mental well-being for girls.

Gender Sensitization: Insights into the need for gender-sensitive education and creating safe spaces that promote girls' participation and growth.

Impact and Conclusion:

The webinar on Rashtriya Balika Divas left a lasting impact by creating awareness, fostering dialogue, and inspiring individuals to actively contribute to the empowerment of girls. By harnessing the potential of technology and knowledge-sharing, the event contributed to the ongoing efforts to create a more equal and just society for girls.

Activity Incharge



District administration, Women Child
development department and Vasumitra
Presents

AWARENESS WORKSHOP

on

**Safe city Indore
Women rights**

Government schemes,
laws for women

Chief speaker

**Dr. Vanchna Singh Parihar
Administrator, One stop centre**

Co speaker

**Sharvari Ubale
Mamta-Unicef Indore**

Platform :-

Google meet

<https://meet.google.com/umv-fzjg-cdy>

DATE :- 27 APRIL 2021

TIME :- 4 PM

Coordinator

**Dr. Kiran Sitole Grishma Trivedi
Holkar college 7415244268**

Patron

**Dr. Suresh Silawat
AD, Higher Education Department
Principal, Holkar College**



CONFERENCE / WEBINAR / FDP ON

महिला सशक्तिकरण

हिंदी विभाग, शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर
23-Jul, 2022 To 26-Jul, 2022

00_D : 00_H : 00_M : 00_S



WEBINAR



WELCOME TO CONFERENCE / WEBINAR / FDP

महिला सशक्तिकरण





महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं।

महिलाओं के सशक्त होने से उनमें अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ताकि वे एक पूर्ण नागरिक के रूप में अपने देश एवं मानवता की सेवा में सहायता पहुँचा सकें। विश्व जननी समझी जाने वाली नारी भी समाज अथवा राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, किन्तु आज संसार की आधी आबादी माने जाने वाली महिलाओं के अधिकारों का सर्वत्र हनन हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की सार्थकता यह है कि उन्हें इतना योग्य बनाया जाये कि वे अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचान सकें और इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें।

Registration



Registration Date

Registration



19-Jul, 2022



25-Jul, 2022

Our Organizer Team



Dr. Suresh T. Silawat

संरक्षक

प्राचार्य, शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान
महाविद्यालय, इंदौर एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च
शिक्षा इंदौर संभाग



Dr. R. C. Dixit

प्रशासनिक अधिकारी

प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र विभाग



Dr. Manorama Agrawal

संयोजक

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग

Speakers Who Are Experts in Their Fields

सुश्री अनुपा कार्यक्रम अधिकारी

**लैंगिक भेदभाव के परिदृश्य में
सशक्तिकरण की आवश्यकता**

पहल जन सहयोग विकास संस्था।

📅 23/07/2022



02:00 PM

03:00 PM



WEBINAR

02:00 PM
03:00 PM

महिला अधिकार, महिला सुरक्षा एवं कानून।

(सेफसिटी कार्यक्रम) महिला बाल विकास विभाग इन्दौर (म.प्र.)

📅 25/07/2022

डॉ. दिव्या गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ

महिला स्वावलंबन - एक कदम विकास की ओर

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला संस्था की संस्थापक व अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसायटी की जिला संयोजक

📅 26/07/2022

02:00 PM
03:00 PM

Organization Department

हिंदी विभाग

शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर

WEBINAR



महिला सशक्तिकरण






- › Home
- › About
- › Certificate
- › Contact

Get in Touch

23-Jul, 2022 To 26-Jul, 2022
 **TIMEING**

hindi@collegeholkar.org
 **MAIL TO US**

हिंदी विभाग, शासकीय होलकर (आदर्श, स्वशासी) विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर
 **ADDRESS**

Copyright © 2022 All Rights Reserved by **webinar.holkar.org**

[Terms of Service](#)

[Privacy Policy](#)

eq[; oDrk



सुश्री अनुपा,

कार्यक्रम अधिकारी,

पहल जन सहयोग विकास संस्था।

विषय:- “लैंगिक भेदभाव के परिदृश्य में सशक्तिकरण की आवश्यकता।”

दिनांक - 23/07/2022

समय 02 से 03 बजे तक



डॉ. वंचना सिंह परिहार,

प्रशासक, वन स्टॉप सेन्टर (सखी) एवं नोडल अधिकारी

(सेफसिटी कार्यक्रम) महिला बाल विकास विभाग इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- “महिला अधिकार, महिला सुरक्षा एवं कानून।”

दिनांक - 25/07/2022

समय 02 से 03 बजे तक



डॉ. दिव्या गुप्ता,

स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला

संस्था की संस्थापक व अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसायटी की

जिला संयोजक।

विषय:- “महिला स्वावलंबन - एक कदम विकास की ओर।”

दिनांक - 26/07/2022

समय 02 से 03 बजे तक

महिला सशक्तिकरण (2022-07-25 01:40 GMT-7)

00:06:10.088,00:06:13.088

Dr. Arjun Solanki: Good Afternoon to All... 🌸🌸🙏🙏 Dr. Arjun Solanki, Assistant Professor (Economics), Govt. College Malhargarh, Dist. Mandsaur (M.P.)

00:07:38.069,00:07:41.069

Dr. Arjun Solanki: Good Afternoon Respected Agrawal Ma'am... 🌸🙏🙏 Dr. Arjun Solanki, Assistant Professor (Economics), Govt. College Malhargarh, Dist. Mandsaur (M.P.)

00:09:40.746,00:09:43.746

alka kachhwaha: Good afternoon everyone Dr.Aika Kachhwaha

00:10:03.083,00:10:06.083

Dr Vandana Mishra: नमस्कार डॉ वंदना मिश्र श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स

00:12:20.124,00:12:23.124

Dr. Arjun Solanki: Excellent Presentation... 🙏👍 So Thanks Dr. Vanchana Singh Ma'am... 🌸🙌🙌

00:12:56.614,00:12:59.614

Anshu Mishra: Good afternoon to all

00:19:41.143,00:19:44.143

Mandeep Kaur: Good afternoon everyone

00:30:30.123,00:30:33.123

Dr. Arjun Solanki: Excellent, Effective, Usefully, Intresting & More Informative Lecture & Session on "Women pEmpowerment".... 🙏👍 So Thanks0P pop pop Today's Guest Speaker Respected Dr. Vanchna Singh Ma'am pop up.... 🌸🙌🙌

00:32:42.943,00:32:45.943

Adarsh Rajput: Article 16 & 19-1(F) of Indian constitution

00:33:50.850,00:33:53.850

Holkar Science College Indore: good afternoon everyone

00:41:19.268,00:41:22.268

Holkar Science College Indore: Online workshop me upsthit sbhi Respected members ka bahut bahut svagat vandan or abhinandanHindi Department in Holkar Science college indore

00:45:10.133,00:45:13.133

Holkar Science College Indore: Tq Vanchna Mem

00:45:12.215,00:45:15.215

Jitendra Jamle: Thank Mam आपने सब कुछ महिलाओ के अधिकार बताया है की दोनों को समान अधिकार है

00:45:33.258,00:45:36.258

Priti Khairwar: Thank you mam

00:45:53.533,00:45:56.533

Akanksha Shukla: Thank you ma'am

00:46:07.685,00:46:10.685

Holkar Science College Indore: Tq so much All

00:46:13.185,00:46:16.185

ABHISHEK SAHU: Thank you mam

00:46:32.816,00:46:35.816

Mukul Kaushik: Thanks mam for this wonderful session 🙏

00:47:46.681,00:47:49.681

Jitendra Jamle: जल्द से जल्द 100% महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो

00:50:18.021,00:50:21.021


Shonali Kumari: Mam what is your stand on pocso act?


00:54:25.216,00:54:28.216

Priti Khairwar: Mam sabhi ko milkar kam karne ki jrurt hai woman ko woman saath dena jruri hai koi sath de ya n de

National webinar on “Reduced Inequality for Sustainable Development”

2022-23

S. No	Component/Activities	Details
1.	Name of the Department / Unit / Agency:	Department of Biotechnology & Bioinformatics
2.	Name of the Activity:	National Webinar
3.	Name of the Scheme:	SDG Goal 10
4.	Date and Year of the Activity:	23 August 2022
5.	Number of Students Participated in the activity:	90
6.	Activity Photographs	
	 <p>Thematic National Webinar on how to reduce inequalities for sustainable development (2022-08-24 13_51 GMT+5_30)</p>	



7.	Report of the Activity (in 100 words):
	<p>Department of Biotechnology & Bioinformatics organized a National webinar on 23 August 2022 on “Reduced Inequality for Sustainable Development” in this program Dr Suresh T. Silawat Principal, Govt Holkar science college, Indore extended his best wishes to the session. Guest speaker, Dr Sharmila, Associate professor, IIT Bombay delivered her brilliant views on “The Difficulties of Equality: Thinking through Gender” another guest speaker Dr Deepak Kumar, Professor & Dean, Dr. B.R. Ambedkar University of Social Science Indore delivered a lecture on “Reduced Inequalities in Inclusive India”. Approx. 90 students are enrolled for the webinar and appreciated both the speakers through feedback. At the end Convener, Dr Kiran Billore expressed her gratitude to the Principal, eminent speakers and participants.</p>

List Of Participants

Name	Designation	Institute/ Organization

Pooja pandey	Student	Government Holkar science college indore M.P
Harshit gupta	Student	Govt. Holkar science college
Gunja	Student	Holkar science college
Preeti verma	Student	Government holkar science college indore
Pradeep Sharma	Faculty	Govt Holkar(Model Autonomous) Science College, INDORE
Mahima tanwar	Student	Holkar science college
Suwarna Tanwani	Faculty	Government Holkar science College Indore
Shivani Baghel	Student	Govt. Holkar science college indore m.p.
Rishika Patidar	Student	Holkar science college,Indore
Naiza Paul	Student	Government Holkar science college Indore
Arti Shah	Student	Govt. Holkar Science College, Indore

Ankita Chouhan	Student	Govt. Holkar science college
Deeksha Likhitkar	Student	Holkar Science College Indore
PRAMEDHA KAMPLIKAR	Student	Govt Holkar Science College Indore
Pramod Kumar Jain	Faculty	Govt.holkar Science College, Indore
Pooja sisodiya	Student	Holkar govt autonomous science College
Harshita punasya	Student	Govt.holkar science College indore
Nikita Kukanda	Student	Govt. Holkar science college Indore
Arati Damor	Student	Holkar science college
Akanksha Garg	Student	Holkar science College indore
Roshani Parihar	Student	Biotechnology
Aliya Akhtar	Student	Govt holkar science college
Sachin Chouhan	Student	Govt. Holkar Autonomous Science College, Indore

Rohinee y	Student	Gov. Holker science college indore
CHITRA RANADIVE	Faculty	Govt. Holkar Science College ,Indore (M.P.)
Kamakshi kushwah	Student	Government Holkal science clg indore mp
Priya Rauraha	Student	Government holkar science college
Niharika Gupta	Student	Holkar science College indore
Dr Rekhasharma	Faculty	Holkar college
Janhvi Tiwari	Student	Govt.Holkar science college
Shikha Bhagat	Student	Govt. Holkar science collage indore mp
Umesh kasde	Student	Holkar science college indore
Ekta Patidar	Student	Govt holkar science college indore
Purnima Upadhyay	Student	Govt. Holkar Science College indore

Simran Ameriya	Student	Govt. Holkar science college Indore
Jaya Viskute	Student	Govt Holkar Science College Indore
Durga kushwah	Student	Govt Holker science college Indore
Kiran Malviy	Student	Holkar science college
SAKSHI CHAURE	Student	Government Holkar science college Indore
Yashraj Jasona	Student	Govt. Holkar Science College Indore
pallavi prajapat	Student	Govt.Holkar science college indore
Satyam Kesharwani	Student	Govt. Holkar Science College
Dr.Kanta Mulchandani	Faculty	Government Holkar Science College,Indore
Shubhangi gour	Student	Holkar science college indore
Minakshee punasya	Student	Govt. Holkar science CLG indorr

Dipika Upadhyay	Student	Holkar science college, Indore
Astha Pardeshi	Student	Holkar Science college
Kundan solanki	Student	GOVT HOLKAR SCIENCE COLLEGE INDORE
Meenakshi Gupta	Student	Holkar science College Indore
anjali gurjar	Student	holkar science
Shaily tripathi	Student	Government holkar science college
Shivani Goyal	Student	Government Holkar science college
Jatin Rajoriya	Student	Government Holkar Science College
Swati soni	Student	Govt.holkar science college indore m.p
Lata lachheta	Student	Govt holkar science college, indore
Ruchika Malviya	Research Scholar	Govt. Holkar Science College Indore

Vinisha Wagh	Student	Holkar science college
Saloni narvariya	Student	Holker science college
Shubhangi Soni	Student	Govt Holkar science college
ROHIT SOLANKI	Student	Govt. Holkar Science College, Indore
Reena Bhabor	Student	Holkar Science College Indore
Harsh Vishwakarma	Student	Government Holkar Science College
Saloni Patidar	Student	Govt Holkar science College indore
Vijita solanki	Student	Government holkar science college
Saroj Solanki	Faculty	Govt Holkar Science College, Indore
Simran Malviya	Student	Government Holkar Science college
Sanskriti jhala	Student	Government Holkar (Model, Autonomous) Science Collage

Sheetal jadhav	Student	Government Holkar (Modal, Autonomous) science college , Indore (M.P.)
Prof. Sarika Tundele	Faculty	Govt. Holkar Science College, Indore
Mugdha	Student	Holkar autonomous science college
Palak bisen	Student	Govt. Holkar science College indore
Rupali chouhan	Student	Gov. Holkar college
Muskan Malviya	Student	Holkar science college, indore
Jayshree Kushwah	Student	Holkar science college
Purnima Upadhyay	Student	Govt. Holkar Science College indore
Shivangi Raghuwanshi	Student	Holkar science college
Sonal Sharma	Student	Holkar science college indore
Shivani uikey	Student	Govt. Holkar science college indore mp

Shreya Dubey	Student	Government Holkar Science College
Shivani Patidar	Student	Government Holkar Science College
Dr Priti	Faculty	Govt Holkar sc college
Praveen Lathiya	Student	Government Holkar sciences College
Ekta Ghagre	Student	Holkar science college
Kuldeep	Student	Holker science college indore
Anamika Solanki	Student	Govt Holkar (model autonomous)science college Indore (m.p.)
Namrata Biswas	Student	Govt. Holkar Science college Indore
Akanksha gautam	Student	Holkar science college indore
Nikita Sharma	Student	Gov Holkar science college
Mitali Gupta	Student	Holker science college
Devendra Singh sonigara	Student	Holkar science college

Brijraj singh	Student	Govt. Holker science college
Sonam mishra	Student	Govt. Holkar science college Indore
Simran Pareta	Student	Holkar science college
Payal Goyal	Student	Govt.Holkar(model autonomous)science college, indore (M.P.)
Shanu suryawanshi	Student	Institute
Alpna Minj	Student	Holkar
Divya Sharma	Student	Govt. Holkar science college indore
Shravi jain	Student	Holkar science college
Uddeshya Tamrakar	Student	Government holkar science college
Dr. Geetha Sarasan	Faculty	Govt. Holkar Science College, Indore
Neha Chouhan	Student	Holkar science college
Prachi dwivedi	Student	Holkar science College

Satish Rai	Faculty	Government Holkar Science College
Aniket	Student	Govt Holkar science college Indore
Harshit Kulmodiya	Student	Holkar science collage
Ashutosh Chaturvedi	Student	Govt. Holkar (Model Autonomous) Science College Indore M.P
Aditi Shukla	Student	Govt. Holkar (Model Autonomous) Science College Indore M.P
Aashish singh bais	Student	holkar science college indore
Nikki goyal	Student	Govt Holkar science autonomous college
Dr PRAMILA SADHAV	Faculty	Govt Holkar Science college Indore
Sheetal verma	Student	Govt. Holkar science college indore
Neha yadav	Student	Holkar Science College Indore MP

Manisha Ahirwar	Student	Holkar science college Indore.
-----------------	---------	--------------------------------

Activity In Charge

HOD
Department of Biotechnology & Bioinformatics